

I. निम्नलिखित सवालों का जवाब दें।**4x1=4**

1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
2. अनुरूप शब्द लिखिए :
पहाड़ : गिरि :: चोटी : शिखर
3. महासागर - समुद्र - असुर: राक्षस
4. आदि × अन्त

II. दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए।**3x2=6**

5. गोताखोर सागर में कई बार डूबकर खाली हाथ वापस लौट आता है। सहज पानी में मोती नहीं मिलते हैं, उसके लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है। इससे उसकी उत्साह दुगुना बढ़ता रहता है। अंत में उसकी हाथ खाली नहीं रहती हैं।
6. गाँव की सफाई के लिए बालक रोज एक घंटा गाँव की सफाई काम करनेका निश्चय किए। गाँव को हरा भरा रखने के लिए गाँव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने को निश्चय किए।

अथवा

कर्नाटक विशेष प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। यहाँ के लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों में नीलगिरी की पर्वतमालाएँ हैं। यहाँ पवित्र कावेरी, कृष्णा, तुगभद्र नदियाँ और जलाशय भी हैं। और कर्नाटक चंदन का आगर है।

7. यशोदा कहती है बलराम जन्म से ही चुगलखोर है, मैं गो धन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं हूँ तेरी माता और तुम मेरे पुत्र हो इस प्रकार यशोदा कृष्ण को सांत्वना देती है।

अथवा

बिछेंद्री का बचपन बहुत मुश्किल में बीता। बचपन में बिछेंद्री रोज 5 किलोमीटर पैदल चल कर स्कूल जाता पड़ता था। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इसी तरह उन्होंने संस्कृत में एम.ए तथा बी.एड तक की शिक्षा प्राप्त की।

III. चार-पाँच वाक्यों में उत्तर लिखिए:**2x3=6**

8. कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुर वास्तुकला और शिल्पकला की दृष्टि से विश्व विख्यात है। इन मंदिरों की मूर्तियाँ रामायण महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं। और श्रवणबेलगोल में 57 फूट ऊंची गोमटेश्वर की एक विशाल मूर्ति त्याग और शांति का संदेश देती है। बिजापुर के गोलगुंबज भी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है।

अथवा

बालकृष्ण अपनी माता से यह शिकायत करता है कि अपने काले रंग के कारण भाई बलराम चिढ़ाता है कि वह माता यशोदा का बेटा वह नहीं हैं। बल्कि मोल लिया है गया। भाई बलराम के साथ सब ग्वाल बाल चुटकी बजा-बजाकर उसका मजाक करते हैं।

यशोदा अपने प्यारे कृष्ण को पुचकारकर कहती है कि कृष्ण ही उनका प्यारा और दुलारा बेटा है, बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है, वह कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए. गोधन पर कसम खाकर कहती है कृष्ण ही अपना पुत्र है।

9. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री एक नायलॉन की रस्सी के सहारे शिखर पर चढ़े। और आवश्यक चार लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग ढाई लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। रेगुलेटर पर जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो उनका कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी।

अथवा

प्रस्तुत पाठ से यह संदेश मिलता है कि साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीख सकते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी मिलती है। बिछेंद्री की तरह बचपन से ही मुसीबतों को सामना करना चाहिए। इस पाठ से जान सकते हैं कि मेहनत का फल अच्छा होता है।

IV. निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखिए ।

1x4=4

10.

1. इंटरनेट पर निबंध

परिचय:

इंटरनेट आज देश-दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली है। इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट वह माध्यम है जिसके द्वारा कंप्यूटर एक-दूसरे से जुड़ सके हैं। इस तकनीक ने सारे कम्प्यूटरों को विश्वव्यापी जोड़ दिया इसने हमारे संचार के तरीकों को बदल दिया है। इसने व्यापार करने के तरीकों को पूर्णतया बदल दिया है। इसने मनोरंजन की एक नई दुनिया भी स्थापित की है।

इंटरनेट का उपयोग:

आजकल इंटरनेट हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसने हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित किया है। विविध सोशल नेटवर्किंग साइटों ने हमें अपने मित्रों और संबंधियों से जोड़ दिया है। हमलोग तसवीरों और संवादों की अविलंब साझेदारी कर सकते हैं। हमलोग विश्व के किसी भाग से उनसे बातें कर सकते हैं।

इंटरनेट ने व्यापार को भी उन्नत किया है। उत्पादों का विज्ञापन बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन भुगतान, टिकटों की बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आदि सूचना-प्रौद्योगिकी के ही परिणाम हैं। विश्व के किसी भी भाग में ई-मेल भेजना सेकेंडों की बात रह गई है। वेब कन्फ्रेंसिंग, विडियो चैटिंग, ऑनलाइन सेमिनार आदि ने व्यापार को नई ऊँचाइयाँ दी हैं।

किसी सूचना तक पहुँचना अपेक्षाकृत आसान हो गया है। इंटरनेट से छात्र बहुत लाभ उठाते हैं। वे अपने अध्ययन की सामग्रियाँ ऑनलाइन प्राप्त करते हैं। वे अपने अध्ययन-कक्ष में ही विश्व-प्रसिद्ध पुस्तकालयों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं।

उपसंहार:

इसके बावजूद, हमलोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंटरनेट ने हमलोगों के जीवन को काफी बदल दिया है। यदि हम इंटरनेट की शक्ति का सकारात्मक तरीके से उपयोग करें तो हम सभी क्षेत्रों में अद्भुत परिणाम पा सकते हैं। इंटरनेट हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। इससे हमें फायदे और नुकसान दोनों ही प्राप्त होते हैं। हमें सदैव इसका लाभ उठाना चाहिए जिससे हमें इससे फायदा हो सके।